

जिला कलक्टर ने किया शहर के विभिन्न जगहों का निरीक्षण

झुंझुनू, एक जनवरी। जिला कलक्टर रवि जैन ने मंगलवार शाम शहर के विभिन्न स्थानों एवं पार्को का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैन ने नेहरू पार्क में नगर परिषद् द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां लगाई जा रहे पेड़-पौधा, बेंचो, बच्चों के झूल्लों, फव्वारा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नेहरू जी की मूर्ति पर कलर करने, पैदल चलने के लिए तैयार की जा रहे फूटपाथ को ठोस बनाने, सोलर लाईट जल्द लगाने के साथ-साथ कार्य को शीघ्र पूरा कर आमजन के लिए इसे खोलने के निर्देश दिए।

जैन ने इसके बाद शहीद स्मारक पार्क पहुंचे और वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को यहां पर बैठने के लिए बेंचों की संख्या बढ़ाने एवं पार्क के बाहर इंटरलॉक के पार्ट को जोड़ने के निर्देश दिए। वही नगर परिषद के पास बन रहे ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर वहां भरे गंदे पानी को बाहर निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने रोडवेज बस डिपो में बन रहे आधुनिक वातानुकूलित सावर्जनिक शौचालय का निरीक्षण कर डिपो में फैल रही गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां महिला पैसाब घर की सफाई करवाने के साथ ही जगह-जगह कचरा पात्र रखवाने, स्वच्छता सर्वेक्षण टीम आने से पहले रोडवेज डिपो को सुचारू रूप से दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने वहां मौजूद चाय पीते हुए यात्री से पूछा की आप इस गिलास को कहा डालोगे, तो यात्री ने जवाब दिया की कचरा पात्र में डालेंगे। रवि जैन ने नेतराम मधराज कॉलेज के सामने एलएण्डटी कम्पनी द्वारा बनाए जा रहे सीवरेज के कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देश दिए कि तीन दिवस में इस कार्य को पूर्ण करवाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो।